



### सिटी ऑफ ब्रैम्पटन सुरक्षित और सुविधाजनक नकद रहित भुगतान की ओर बढ़ रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (3 जुलाई, 2020) – पिछले सप्ताह अपनी मीटिंग में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, अपने जारी कार्य में सुधार करने और सुरक्षा उपायों के हिस्से के तौर पर, प्रॉपर्टी टैक्सों और बिल्डिंग डिवीजन (Building Division) फीसों के लिए, एक नई नकद रहित (कैशलेस) भुगतान प्रक्रिया को मंजूरी दी।

निवासियों, कारोबार-मालिकों और कर्मचारियों के बीच में, अधिक सुरक्षित वित्तीय लेन-देन (ट्रांजैक्शंस) के लिए, 1 जनवरी, 2021 से, सिटी निम्नलिखित विधियों के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स और बिल्डिंग डिवीजन फीसें लेगी, क्योंकि तब नकद भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे:

- प्री-अथॉराइज़्ड भुगतान
- ऑनलाइन बैंकिंग
- फोन बैंकिंग
- निजी बैंकिंग ब्रांचों के द्वारा व्यक्तिगत भुगतान
- व्यक्तिगत डेबिट-कार्ड भुगतान
- व्यक्तिगत क्रेडिट-कार्ड भुगतान (केवल बिल्डिंग संबंधी फीसें)

इस समय, युवाओं और बुजुर्गों जैसे समूहों के लिए सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए, ये बदलाव, अन्य प्रकार की उपभोक्ता फीसों, लाइसेंसों और शुल्कों जैसी भुगतान विधियों पर लागू नहीं होंगे। इसमें रेक्रिएशन (Recreation), पी.ओ.ए. (POA) कोर्ट फीसें, एनिमल सर्विसिज (Animal Services) और परफॉर्मिंग आर्ट्स (Performing Arts) के लिए भुगतान शामिल हैं।

अच्छी-तरह संचालित, स्वस्थ और सुरक्षित शहर की, काउंसिल की प्राथमिकता के मुताबिक, नकद रहित भुगतान, लेन-देन पूरे करने का आधुनिक, सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं।

#### पृष्ठभूमि

- भुगतान की विधि के तौर पर नकद लेने में, कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं, जैसे चोरी और लूटमार का जोखिम, जाली बिल मंजूरी करने का जोखिम और हाथ में करंसी लेने से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं।
- बहुत ही कम प्रतिशत प्रॉपर्टी मालिकों ने नकद विधि का उपयोग करते हुए भुगतान किए हैं – जबकि अधिकतर मालिकों ने प्री-अथॉराइज़्ड टैक्स भुगतान (पी.टी.पी.) (PTP), ऑनलाइन बैंकिंग, टेलिफोन बैंकिंग, चेक या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ई.एफ.टी.) (EFT) के रूप में भुगतान किए। बिल्डिंग डिवीजन फीसों के लिए भी नकद भुगतानों के साथ, ऐसा ही रुझान देखा गया।

-30-

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)